

### OL/SE/638/Aug 2024-25

August 29, 2024

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited		
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,		
Dalal Street, Mumbai - 400001	Bandra (E), Mumbai - 400051		
Security Code: 532880	Symbol: OMAXE		

# <u>Subject: Intimation pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure</u> Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam.

Please find enclosed the copy of newspaper publication in Business Standard (English and Hindi). The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website i.e. <a href="https://www.omaxe.com">www.omaxe.com</a>.

Also, please note that the Company has sent notices to the creditors of the Company, seeking their consent for shifting of its Registered Office from the State of Haryana to the State of Delhi. The details as required under Schedule III of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-I /P/CIR/2023/123 dated 13<sup>th</sup> July 2023 with respect to aforesaid matter are provided below:

- a. Date of Notice /call letters/resolutions etc.: August 29, 2024
- b. Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be passed, manner of approval proposed etc.: The Company has sent notices to the creditors of the Company, seeking their consent for shifting of its Registered Office from the State of Haryana to the State of Delhi.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You.

For Omaxe Limited

Company Secretary

D B R Srikanta

Company Secretary & Compliance Officer

"This is to inform that please make all correspondence with us on our Corporate Office Address only"

OMAXE LIMITED





### **NORTHERN RAILWAY**

**CORRIGENDUM** 

Ref.: i) Tender Notice No. 32/2024-2025 Dated 12.07.2024 S.No. 13 ii) Tender No. 07241514 due on 24.10.2024

In reference to above tender, the due date of opening of tender No. 07241514 has been prepond from 24.10.2024 to 10.09.2024. All other terms and conditions remain unchanged. The corrigendum has been published or website www.ireps.gov.in 2673/2024

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

### **PUBLIC NOTICE**

General public is hereby informed that our client, M/s. Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi-682018, Kerala, India CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506 mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 31.03.2023 & (Low Tounch/Low Quality/Insufficient Weight Deduction Accounts for the period up to 31.03.2024), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate. First Auction Date: 05.09.2024

Bhadra-(RA) (4507): BLS-18, 125, 234, 235, 248, 252, MDL-725, 847, MEG-176, MUL-2406, 2407, 2413, 2471, RGL-2669, 2722, 2733, 2790, 2903, 3017, 3029, 3253, 3268, 3284, 3364, 3391, 3448, 3469, 3501, 3537, 3539, SRS-21, 28, 37, 39, 44, 75, 79, 150, 161, 179, 196, 202

Second Auction Date: 06.09.2024, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, Ward 18, Near Bhadra Main Bus Stand, Hissar Road,

Hanumangarh-335501 The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches.

However please note that in case the auction does not get completed on the given date(s), then in that event the auction in respect thereto shall be conducted/continued on Second Auction date at given auction centre, and further in case the said ornaments are still not successfully auctioned on these dates then such auction shall be continued on subsequent days thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.

#### Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: recoverynorth@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461



# Vardhmān

Delivering Excellence, Since 1965,

### VARDHMAN TEXTILES LIMITED

Registered Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana - 141 010 (Punjab), India Tel No: 0161-2228943-48, Fax: 0161-2601048 PAN: AABCM4692E, CIN: L17111PB1973PLC003345

### NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE, E-VOTING DETAILS AND DIVIDEND

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Vardhman Textiles Limited is scheduled to be held on Thursday, 19th September, 2024 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, read with applicable Circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Participation of Members through VC / OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 7th September, 2024 to Saturday, 14th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for the financial year 2023-24, if declared by Members at the AGM. As mandated by the SEBI, w.e.f. April 1, 2024, dividend to the Members holding shares in physical form shall be paid electronically, only after they have furnished their PAN, choice of nomination, contact details, mobile number complete bank details and specimen signatures, etc. for their corresponding physical folios.

In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the F.Y. 2023-24, has been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.yardhman.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively Notice of AGM is also available on the website of CDSL a www.evotingindia.com.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. and relevant circulars, the Company is pleased to provide the facility to embers, to exercise their right to vote, by electronic means on all the resolutions as set out in the Notice of AGM, either through remote e

#### Voting or e-Voting during AGM. All the Members are informed that:

- The remote e-Voting period shall commence from Monday, 16th September, 2024 from 9:00 a.m. and shall end on Wednesday. 18th September, 2024 at 5:00 p.m. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for e-Voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Thursday, 12th September, 2024;
- iii. Any person, who acquires shares and become Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 12th September, 2024, may cast their votes by following the instructions and process of e-Voting as provided in the Notice of AGM.
- iv. Members may note that:
- a) the manner of e-Voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company;
- b) Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their email address with the Company are requested to register/update the same by filing form ISR-1 alongwith a  $self-attested\ copy\ of\ PAN\ card\ at\ secretarial. Iud@vardhman.com\ or\ to$ RTA at rta@alankit.com;
- c) Members holding shares in dematerialized mode who have not registered/updated their email address with their Depository Participant(s) are requested to register/update their email addresse with the relevant Depository Participant;
- d) the voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date;
- e) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote
- f) a person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting;
- g) the result of the resolutions passed at the AGM will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM.
- In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ('the Act') as amended from time to time, dividend declared and paid by a company is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the shareholders at the applicable rates. We shall, therefore, be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the said Dividend. A brief communique summarizing the applicable TDS provisions, as per the Income Tax Act, 1961, for resident and nonresident shareholder categories together with documentation requirements from members in this regard can be viewed at web link: https://www.vardhman.com/Document/Report/Investor%20Help/Oth er/Vardhman%20Textiles%20Ltd/Guidelines\_for\_applicability\_of\_TD

S\_on\_dividend\_payout\_for\_FY\_24-25.pdf For any queries you may contact the following:-Contact Person: Mr. Sanjay Gupta

Designation: Company Secretary

Address: Registered Office, Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana-141010, Punjab

E-mail: secretarial.lud@vardhman.com Phone No.: 0161-2228943-48

Place: Ludhiana

Date: 28.08.2024

By order of the Board of Directors

(Sanjay Gupta) Company Secretary

Date: August 28, 2024

Place: New Delhi

#### NOTICE

OMAXE LIMITED

(CIN: L74899HR1989PLC051918) Regd. Office: Shop No.19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall Sohna Road, Gurugram-122 001, (Haryana) Corp. Office: Omaxe House 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-110019 Tel: 91-11-41893100, 41896680-85 | Fax: 91-11-41896679 Email: secretarial\_1@omaxe.com | Website

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Regional Director Ministry of Corporate Affairs, North Region

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

in the matter of OMAXE LIMITED having its registered office at Shop No-19-B, First Floor Oma Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122001 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the covernment under section 1 s of the Companies Act, 2013 seeking commended of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed through postal ballot on 29.03.2024 to enable the company to change its Registered office from "Shop No-19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122001 to 7, Local Shopping Centre, Kalkaji, New Delhi-110019". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director at their address- B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, GO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Shop No-19-B, First Floor Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon, Haryana-12200

For and on the behalf of Board For Omaxe Limited

(Director) DIN: 03575020

# SHREE HARI CHEMICALS EXPORT LIMITED

Corporate Identification No. (CIN) - L999999MH1987PLC044942 Registered Office: A/8, MIDC, Mahad, Dist, Raigad-402309, Maharashtra Corporate Office: 401/402, A-Wing, Oberoi Chambers, Opp. Sab TV, New Link Road, Andheri (West), Mumbai -400053 Tel:02145-232177/233492/022-49634834 E-mail: info@shreehari

Website: www.shreeharichemicals.in NOTICE TO SHAREHOLDERS WITH RESPECT TO

37TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 37thAnnual General Meeting ("AGM") of the Company

will be held on Friday, September 27, 2024 at 01.00 p.m. through Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM. The AGM will be held without the physical presence of the Shareholders at a common venue. This is in view of the continuing COVID-19 pandemic and in compliance with the General Circular dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The instructions for joining the AGM are being provided in the Notice of the AGM and attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") is being sent only by electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) in accordance with the aforesaid MCA circulars and said SFBI Circular.

The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.shreeharichemicals.in and websites of BSE Limited i.e. at www.bseindia.com.

The Company is pleased to provide the facility of e-voting to its Shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remotee-voting system (e-voting from the place other than venue of the AGM) as well as e-voting during 'the proceeding of the AGM (collectively referred as e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), for providing the e-voting facility to the Shareholders. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Shareholders whose Email IDs are already registered with the Company/ Depository/ RTA, may follow the Instructions for e-voting as provided in the Notice of the AGM. Members who have still not registered their e-mail ID are requested to get their E-mail ID registered on or before August30, 2024 as follows:

- Shares in Physical Mode: please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar and Transfer Agent at rnt.helpdesk@linkintime.co.in / Company at info@shreeharichemicals.in
- Shares in Dematerialized Mode: please provide Demat account details (CDSL 16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to M/s. Link Intime India Pvt. Ltd,, Registrar and Transfer Agent at rnt.helpdesk@linkintime.co.in/ Company at info@shreeharichemicals.in for sending the notice through email and also get the details updated in your demat account for future purpose.

For Shree Hari Chemicals Export Limited

Place: Mumbai Dated: August 29, 2024

Bankesh Chandra Agrawal Chairman & Managing Director

# JKE JAYKAY ENTERPRISES LIMITED

CIN: L55101UP1961PLC001187 Registered Office: Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh Telephone: +91 512 2371478-81

Email: cs@jaykayenterprises.com; Web: www.jaykayenterprises.com

# NFORMATION REGARDING 78<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF JAYKAY ENTERPRISES LIMITED

otice is hereby given that the 78th Annual General Meeting ("AGM") of the Mer of Jaykay Enterprises Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday September 27, 2024 at 12:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Othe idio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of 78th AGM, in compliance with General Circular No. 09/2023 dated September 25 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other Circulars issued by MCA in this regard and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD 2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchang oard of India ("SEBI") read together with other Circulars issued by SEBI in this regard (herein after collectively referred to as "Circulars"), companies are permitted o convene the AGM through VC or OAVM without physical presence of the Mem at a common venue. Members can join and participate in the AGM through VC OAVM facility only.

- In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice of 78th AGM and Annua Report for the Financial Year 2023-24 will be sent in due course, through electronic mode to all those Members whose email IDs are registered with the Company or Depository Participants ("DPs") or the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz Alankit Assignments Ltd as on August 23. 2024. In case any member is desirous to obtain physical copies of the Annua Report, he/she may write to us at cs@jaykayenterprises.com and to RTA a iksingla@alankit.com mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID, Name and Address. The Notice of 78th AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company at <a href="www.jaykayenterprises.com">www.jaykayenterprises.com</a>, the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at <a href="www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com where the equity shares of the Company are listed.
- The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the Notice and members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

Manner of registering/ updating email address and/ or other KYC details

In case of physical Please provide prescribed form ISR-1 along with other requisite form available on the website of Company www.jaykayenterprises.com, duly self -attested by the shareholder(s) to Company's RTA at rta@alankit.com at Alankit House, 4E/2, Jhandelwalan Extension, New Delhi-110055 In case of demat Please update/Contact with your respective DP's

holding We also draw the kind attention to the Circulars issued by SEBI mandating updation of KYC details i.e. PAN, Nomination, contact details, bank account

Manner of e-voting and participation in the AGM: The facility for casting the votes by the members through e-voting facility (remo e-voting facility and e-voting during the AGM) will be provided by CDSL and the detailed procedure for e-voting and participation in the AGM through VC/OAVM shall be provided in the Notice of 78th AGM. The Members who have cast their

details and specimen signature of the shareholder holding shares in physical

vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall no be entitled to cast their vote again. Those Members who participate in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote through remote e-voting may cast their vote electronically during the AGM. In case of any query, a member may send an email to the RTA at rta@alankit.com

or to the Company at cs@jaykayenterprises.com By order of the Board For Jaykay Enterprises Limite

> Yogesh Sharma Company Secretary & Compliance Office Membership No. ACS-29286

AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

corporate Off: Kanakia Wall Street, 5th floor, A 506-510, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400093 DEMAND NOTICE
UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL

ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules") The undersigned being the authorized officer of Ambit Finvest Private Limited under the Act and i stretchesigned being the authorized officer of Ambit Finvest Finvale Limited under the Act and in secrecise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Volice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s) nerefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The content

of definant notice(s) are extracted herein below.								
Name of the Borrower(s)	Demand Notice Date Amount	Description of Immovable property) properties mortgaged						
1.ALAKNANDA TRADERS (THROUGH ITS PROPRIETOR) SAURABH PARIHAR 2.SAURABH PARIHAR 3. M/S SHERA MAL MANGAT RAM 4. GAURAV KUMAR 5. SHAYAM LATA 6.RAJENDER PRASAD 7.GAURAV SAREE CENTER 8.VARUN PARIHAR 9.REKHA PARIHAR 10.TARUN PARIHAR Lan Nos. DEL00000008017 DEL000000025717	13.08.2024 RS.1,38,18,819.37/- (One Crore Thirty Eight Lakh Eighteen Thousard Eight Hundred Nineteen Rupees And Thirty Seven Paisa Only) As On: 07.08.2024	ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING NO. 139, LAND MEASURING 60 SQUARE YARDS, KHASRA NO. 48, SITUATED AT: LAL DORA BADI MAIN BAZAR BADARPUR, NEW DELHI – 110044. BOUNDARY OF THE SAID PROPERTY 10. 138 EAST – OTHER PROPERTY WEST—ROAD SOUTH—PROPERTY WEST—ROAD SOUTH—PROPERTY NO. 113						
DEL00000023/1/	l .	I						

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that AFPL is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s mortgaged by the borrower(s).

In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, AFPL shal be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy vailable under the Act and the Rules thereunder and realize payment. AFPL is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), AFPL also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to over the dues payable to the AMPL This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to AFPL under

The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available. redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way or sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of AFPL and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours

Place: NEW DELHI Prashant Ohal, Authorised Office



### VARDHMAN ACRYLICS LIMITED Registered Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road,

Ludhiana - 141 010 (Puniab), India Tel No: 0161-2228943-48, Fax: 0161- 2601048 PAN: AAACV7602E, CIN: L51491PB1990PLC019212 Email: secretarial.lud@vardhman.com, Website: www.vardhman.con

### NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE, E-VOTING DETAILS AND DIVIDEND

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Vardhman Acrylics Limited is scheduled to be held or Thursday, 19th September, 2024 at 3:00 p.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with all applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI Circulars (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Participation of Members through VC / OAVM wil be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 7th September, 2024 to Saturday, 14th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for the financial year 2023-24, if declared by Members at the AGM. As mandated by the SEBI, w.e.f. April 1, 2024, dividend to the Members holding shares in physical form shall be paid electronically, only after they have furnished their PAN, choice of nomination, contact details, mobile number, complete bank details and specimen signatures, etc. for thei corresponding physical folios.

n compliance to the above circulars, the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the F.Y. 2023-24, has been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depositor Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.vardhman.com and on the website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited a www.nseindia.com. Notice of AGM is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and relevant circulars, the Company is pleased to provide the facility to Members, to exercise their right to vote, by electronic means on all the esolutions as set out in the Notice of AGM, either through remote  $\epsilon$ Voting or e-Voting during AGM

## All the Members are informed that:

- The remote e-Voting period shall commence from Monday, 16th September, 2024 from 9:00 a.m. and shall end on Wednesday 18th September, 2024 at 5:00 p.m. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for e-Voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Thursday, 12th September, 2024;
- Any person, who acquires shares and become Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 12th September, 2024, may cast their votes by following the instructions and process of e-Voting as provided in the Notice of AGM.
- Members may note that:
- a) The manner of e-Voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company.
- Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their email address with the Company are requested to register/update the same by filing form ISR-1 alongwith a self-attested copy of PAN card at secretarial.lud@vardhman.com or to RTA at mparase@mcsregistrars.com;
- Members holding shares in dematerialized mode who have no registered/updated their email address with their Depository Participant(s) are requested to register/update their email addresse with the relevant Depository Participant;
- d) the voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date; e) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- a person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting
- g) The result of the resolutions passed at the AGM will be declared within  $2\,working\,days\,from\,the\,conclusion\,of\,AGM.$
- In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ('the Act') as amended from time to time, dividend declared and paid by a company is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the shareholders at the applicable rates. We shall, therefore, be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the said Dividend. A brief communique summarizing the applicable TDS provisions, as per the Income Tax Act, 1961, for resident and non resident shareholder categories together with documentation requirements from members in this regard can be viewed at web link:

https://www.vardhman.com/Document/Report/Investor%20Help/Oth er/Vardhman%20Acrylics%20Ltd/Guidelines\_for\_applicability\_of\_TE S\_on\_dividend\_payout\_for\_FY\_2024-25.pdf

For any queries you may contact the following: Contact Person: Mr. Satin Katyal

Designation: Company Secretary

Phone No.: 0161-2228943-48

Address: Registered Office, Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana-141010, Punjab E-mail: secretarial.lud@vardhman.com

Place: Ludhiana

Date: 28.08.2024

By order of the Board of Directors (Satin Katyal) Company Secretary

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

SAMMAAN CAPITAL LTD (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) ("said Act" and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("said Rules") issued a demand notice dated 26.05.2021 calling upon the borrower(s), the guarantor(s) and the mortgagor(s) POOJA SUDAN against LAN No. HHLNOD00229559, to repay the amount mentioned in the said notice being a sum of Rs. 21,19,263.76 (Rupees Twenty One Lakhs Nineteen Thousand Two Hundred Sixty Three and Paise Seventy Six Only) as on 21.05.2021 in respect of the said Facility with further interest thereon and penal interest from 22.05.2021 till payment

30.06.2021 assigned all its rights, title, interest and benefits in respect of the debts due and payable by the borrower/guarantor(s)/mortgagor(s) arising out of the facilities advanced by IHFL to borrower/ guarantor(s)/mortgagor(s) alongwith the underlying securities to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited as Trustee of EARC Trust - SC 432.

EARC Trust - SC 432 & EARC Trust - SC 439 has vide Assignment Agreement dated 25.08.2023 assigned all its rights, title, interest and benefits in respect of the debts due and payable by the borrower/guarantor(s)/mortgagor(s) arising out of the facilities advanced by IHFL to borrower(s)/ guarantor(s)/mortgagor(s) alongwith the underlying securities to Asset Reconstruction Company (India) Limited acting in its capacity as Trustee of Arcil-CPS-IV, Trust ("Arcil") for the benefit of the holders of Security Receipts. Therefore, in view of the said assignment, Arcil now stands substituted in the place of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited and Arcil shall be entitled to institute/continue all and any proceedings against the borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) and to enforce the rights and benefits under the financial documents including the enforcement of ecurity interest executed and created by the borrower/ guarantor(s)/mortgagor(s)

The borrower/guarantors/mortgagor(s) having failed to repay the said amounts to Arcil, notice is hereby given to the borrower/guarantors/mortgagor(s) in particula has taken Symbolic Possession of the secured assets described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-Section (4) of Section 13 of the

The borrower/guarantor(s)/mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below mentioned secured assets and any dealings with the secured assets will be subject to the charge of Arcil for a sum of Rs. 30,57,084.26 (Rupees Thirty Lakhs Fifty Seven Thousand Eighty Four and Paise Twenty Six Only) as on 03.06.2024 in respect of the said Facility with further interest at contractual rate from 04.06.2024 till payment / realisation together with all incidental costs, charges and expenses incurred.

Sub-Section (8) of Section 13 of the said Act, in respect of time available to redeem

DESCRIPTION OF SECURED ASSETS

Property owned by: POOJA SUDAN UNIT NO. 203, 2ND FLOOR, TOWER A, PIYUSH HORIZON, SECTOR 1

**Authorised Officer** 

Date: 24.08.2024

(Trustee of Arcil-CPS-IV, Trust

# THE HI-TECH GEARS LIMITED

CIN: L29130HR1986PLC081555

Regd. Off.: Plot No. 24,25,26, IMT Manesar, Sector-7, Gurugram-122050, Haryana Corp. Off.: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27, Gurugram-122009, Haryana. Tel.: + 91(124) 4715100 Website: www.thehitechgears.com E-mail: secretarial@thehitechgears.com

NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING (A) Annual General Meeting & Book Closure:

Notice is hereby given that 38th Annual General Meeting ("AGM") of THE HI-TECH GEARS LIMITED will be held on Thursday, September 26, 2024 at 05:00 P.M. (IST at the Registered Office of the Company at Plot No. 24, 25, 26, Sector-7, IM7 Manesar, Gurugram-122050, Haryana, along with the facility to attend the AGM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of the AGM in compliance with applicabl provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder, SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR Regulations, 2015"), read with circulars issued by MCA and SEBI from time to time

The facility for voting through ballot form shall be made available at the AGM Venu and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through ballot form Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowe to change it subsequently

Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by Ballot Form or remote voting or through E-Voting (where the members attending the AGM through VC or OAVM facility). In case Members cast their votes through multiple mode, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through Ballot Form or e-voting shall be treated as invalid.

The Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic form to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar a Share Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participant. Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 10 of Companie (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 20, 2024 to 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and the Cut-off date i.e September 19, 2024 shall be considered as relevant date for the purpose o ascertaining the shareholders entitled to receive dividend for the Financial Year ended March 31, 2024, if approved by the shareholders.

## B) Remote E-voting:

Members of the Company be and are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of Companies (Management and Administration Rules) 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has offered Remote e-voting facility for its members to cast their vote electronically on al the resolutions set forth in the Notice from a place other than venue of AGM through the platform of National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are given hereunded

(b) Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, September 25, 2024

23, 2024 at 09.00 A.M.(IST)

at 05.00 P.M.(IST). The remote e-voting module shall also be disabled for voting thereafter. (c) Cut-off date: Thursday, September 19, 2024. (d) Notice of AGM inter alia containing the procedures of remote e-voting, Proxy Forn

(a) Date and time of Commencement of remote e-voting: Monday, September

- and Attendance Slips, are available on the website of the Company a www.thehitechgears.com
- before the cut-off date may approach the RTA or Company for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means. (f) At the AGM, facility for voting through ballot form/e-voting shall be made available only to the members as on the "cut-off date" i.e. September 19, 2024, who have

not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote

(e) Any person who has acquired shares after the dispatch of the Notice of AGM and

- at the AGM through ballot form/e-voting. (g) A Members may participate in the AGM even after exercising his / her right to vot through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- (h) A Person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owner as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting in the AGM.

## E-Voting at the AGM

The facility for e-voting at AGM shall also be made available on the day of AGM i.e Thursday, September 26, 2024. Members may access the same a https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The members who have not cast their votes through remote e voting can cast their vote at AGM. The Company has appointed Mr. Nirbhay Kumar, proprietor of M/s Nirbhay Kumar

Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner. For queries relating to voting, members may refer FAQs and e-voting user manual for members available in download section at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

All correspondence related to e-voting may also be written to Mr. Naveen Jain, Company Secretary & Compliance Officer, at aforesaid address or email to secretarial@thehitechgears.com.

# D) Final Dividend:

If final dividend on shares is approved by the shareholders at the AGM, payment o such dividend will be made to those Members whose names appear in the Register of Members as on cut-off date mentioned above in terms of Section 91 of the Act, Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and other applicable provisions. The aforesaid Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 are also available on the website of the Company i.e. www.thehitechgears.com

For The Hi-Tech Gears Limite Naveen Jair

Place: Gurugram Date: August 28, 2024

(Company Secretary & Compliance Officer M. No: A15237

realisation, within 60 days from the date of receipt of the said notice And whereas subsequently, IHFL has vide Assignment Agreement dated

Thereafter, Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited as Trustee of for the said facilities availed by them

and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of Arcil said Act read with Rule 8 of the said Rules on 24.08.2024.

The borrowers'/guarantors'/mortgagors' attention is invited to the provisions of the

DHARUHERA, REWARI - 123401, HARYANA.

Asset Reconstruction Company (India) Limited Place: REWARI

Punjab & Sind Bank

शाखा : के यू एम साहिबाबाद ; लिंक रोड, साइट-4 इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद पाबाद—201010 (उत्तर प्रदेश) ई—मेल : s0775@psb.co.in परिशिष्ट-IV - कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति हैत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **पंजाब ऐंड सिंध बैंक** के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तिय का प्रतिभृतिकरण एवं पुनरनिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधि सं. 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 साथ पठित धार 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 01–06–202**4 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों **श्री कमलेश शर्मा पुत्र श्री चंद्रिका शर्मा, श्रीमती सुमित्रा शर्म** पत्नी श्री कमलेश शर्मा तथा श्री उमेश सिंह पुत्र श्री चीदी सिंह से सूचना में वर्णितानुसार बकाय राशि रू. 13,52,829.32 (शब्दों में तेरह लाख बावन हजार आठ सौ उन्तीस तथा पैसे बत्तीर मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार और गारंटर उक्त राशि(या) चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार औ सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अघोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए यह नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा 22-08-2024 को ले लिया है।** 

रतदद्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहा नहीं करने की चेतावनी दी जाती है तथा उक्त सम्पत्ति(यों) के संबंध में कोई भी संव्यवहा पंजाब ऐंड सिंध बैंक की बकाया राशि रू. 13,52,829.32 तथा उस पर ब्याज के अधीन होगा कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनिय की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड**ः प्लॉट नंबर डी–404 पर निर्मित प्लैट नंबर एफ–3 (प्रथम तर एमआईजी), एसटीपी होम्स, इंद्रप्रस्थ कालोनी, गाजियाबाद, एसआर—4 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में दस्तावेज नंबर 27022, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 28448, पेज 135–184 प

दिनांक 29-09-2014 को विधिवत पंजीकृत। चौहद्दी: उत्तर: 12 मीटर चौड़ी रोड, दक्षिण: अन्य का प्लॉट पूरव : प्लॉट नंबर डी-403,

तिथि : 22–08–2024, स्थान : गाजियाबाद

पश्चिम : फ्लैट नंबर एफ-4

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब ऐंड सिंघ बैंक

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड जाना जाता था)ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 (2002 का 54) ("उक्त एक्ट") और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 (उक्त रूल्स) के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार, गारंटर और गिरवीकर्ता **प्रजा मदान** को कर्ज खाता नं . HHI NOD00229559 के तहत दिनांक 26 05 2021 की सूचना में 21.05.2021 तक उल्लिखित राशि जो रू. 21,19,263.76 (रूपए) इक्कीस लाख उन्नीस हजार दो सौ तिरसठ और छिहत्तर पैसे मात्र) है को उक्त सुविधा के संबंध में 22.05.2021 से भुगतान / वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

और जब कि बाद में, आईएचएफएल ने दिनांक 30.06.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से **आईएचएफएल** द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार /गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, शीर्षक, व्याज और लाभ अंतर्निहित प्रतिभृतियों के साथ ईएआरसी टस्ट - एससी 432 के टस्टी के रूप में एडलवाइस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी **लिमिटेड** को सौंप दिए हैं ।

इसके बाद में, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने ईएआरसी ट्रस्ट - एससी 432 और **ईएआरसी टस्ट -एससी 439** के टस्टी के रूप में दिनांक **25.08.2023** के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से **आईएचएफएल** द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में सिक्योरिटी रिसिप्ट धारको के लाभ के लिए **एआरसीआईएल**-सीपीएस-IV, ट्रस्ट ("एआरसीआईएल") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) **लिमिटेड** को सौंप दिए हैं । इसलिए, उक्त असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए, **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के स्थान पर अब **एआर सीआईएल** को रखा गया है और **एआर सीआईएल** कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यवाही को शुरू करने / जारी रखने और वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने की हकदार होगी, जिसमें कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है ।

एआरसीआईएल को उक्त धनराशि चुकता करने में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के विफल रहने पर एतदुद्वार विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, एआरसीआईएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.08.2024 पर, नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को निचे उल्लेखित सरक्षित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और सुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन 03.06.2024 तक रू. 30.57.084.26 (रूपए तीस लाख सत्तावन हजार चौरासी और छब्बीस पैसे मात्र) की राशि के उक्त सुविधा के संबंध में 04.06.2024 से भुगतान / वसूली तक सभी आकस्मिक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ **एआर सीआईएल** के शुल्क के अधीन होगा ।

नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का स्वामित्व: पजा सदान

यूनिट नं. 203, दूसरी मंजिल, टावर ए, पीयूष होराइजन, सेक्टर 1, धारू हेडा, रेवाडी - 123401, हरियाणा। प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 24.08.2024

एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड स्थान : रेवाडी (एआरसीआईएल-सीपीएस-IV टस्ट के टस्टी)

OMKARA ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड **कार्पोरेट कार्यालय :** कोहिनूर स्क्वेयर, 47वाँ तल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.

> [परिशिष्ठ – IV-A] [नियम 8(6) के लिए परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल **रिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना।** तद् द्वारा सामान्य रूप से जुनता को और विशेष रूप से नीचे उल्लेखित उधारकर्ता और सह—उधारक

सिर्सार पंजान क्येस जनात्रा जार प्रियंत्र कर्म भी जिल्ला है। उसकी कि विकास की भी से सिर्सार है। भी से सिर्सार है। भी अशोक कुमार गुप्ता) और गारंटरों श्री परेश रस्तोगी, श्री पीयूष रस्तोगी, श्री पंकज रस्तोगी और श्री दीपक रस्तोगी और बंधककर्ता श्रीमती कृष्णा देवी और श्रीमती रानी देवी को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति प्रत्यामूत ऋणवाता (पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पीसीएचएचएफएल)) को बंधक रखी गर्द है। जिसका सांकेतिक कब्बा पीरामल कैपिटल एएड हाउसिंग nाइनेंस लिमिटेड (अब ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अभिहस्तांकित) ग्राधिकत अधिकारी यानी प्रतायभत ऋणदाता द्वारा लिया गया है।

इसके बाद, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) ने, (ओमकारा पीएस 03/2023—24 दुस्ट के दुस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) उपरोक्त उघारकर्ता/ गारंटर के विरुद्ध दिनांक 30 मार्च 2024 को अभिहस्तांकन समझोते के तहत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग हाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएचएफएल) से अंतर्निहित प्रतिभृतियों के साथ पूरा बकाया ऋण प्राप्त कर लिय

a तरनुसार, वर्णित अचल संपत्ति को ''जो है, जहां है'', ''जो है जैसी है'', ''यहां जो कुछ भी है'' और ''दायित्वरहित आधार'' पर, 18 सितंबर,2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पर ऑमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रवशन प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त उधारकर्ता/ गारंट्र से बकाया रूपये 202,22, 24,046/— (रूपये दौ सौ दौ करोड़ बाईस लाख चौबीस हजार छियालीस मात्र) 31.01.204 तक प्लास दिनाक 1 फरवरी , 2024 से ब्याज और व्ययों सहित बकाया की वसूली के लिए बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रूपये 32,50,00,000/**— (रूपये बत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) और अग्रीम राशि जमा **रूपये 3, 25,00,000/—** (रूपये तीन करोड पच्चीस लाख मात्र) होगी।

इन संपत्तियों की बिक्री सरफैसी नियमों के प्रवधानों के तहत अधिकारों और शक्तियो का उपयोग करत

संपत्ति का विवरण

की अंतिम दिनांक और समय/ ईएमडी

प्रकार हैं-

आरक्षित मूल्य 🛮 ईएमडी

बधक सपति यानी भूमि धारक खसरा स 32.879 वर्ग फुट शेखपुर-कसैला, पै उस पर वर्तमान एवं भविष्य का संपूर्ण ि देवी पत्नी श्री जवाहरलाल रस्तोगी औ सर्वांगीण भाग।	Rs.	Rs. 3,25,00,000/-			
नीलामी की दिनांक	18 सितंबर, 2024, बुद्धवार पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तर				
निरीक्षण दिनांक	10 सितंबर, 2024, मंगलवार अर्पाह्न 11:00 बजे से दोप 12:00 बजे तक				
न्युनतम बोली वृद्धि राशि	रूपये 32,50,000/—(रूपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र)				
भागीदारी हेतु बोली प्रपत्र जमा करने	17 सितंबर, 2024, मंगलवार अप	िक्क 4:00 बजे तव	n n		

के प्रमाण/केवाईसी दस्तावेज नीलामी ओएआरपीएल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ईएमडी (मूल में) डीडी/पे ऑडर या एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषण) के साथ (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी में ामा करने की अंतिम **दिनांक 17 सितंबर, 2024 मंगलवार शाम 4.00 बजे** तक है।

नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया दी गई लिंक https://omkaraarc.com/ auction.php और या https://www.bankeauctions.com का संदर्भ लेने की सलाह

इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होने ईएमडी जमा किया है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेट इण्डुण बालावाताआ ।जन्हान इर्प्पडा जमा क्या ह आर लागिन आइडा आर पासवड बनान, डट अपलोड करने, बोली जमा करने, ई—बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई—निलामी सेवा प्रदाता ''मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'', फोन हेल्पलाइन +91-7291981124/25/26, हे ल्पलाईन ई—मे ल आईडी support@bankeauctions.com, या श्री माविक पण्ड्या, मोबाइल : 8866682937 मेल : maharashtra@c1india.com और किसी भी संपत्ति से संबंधित जानकारी वे लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी श्री सुबोध सोनवले,मोबाइल नं. :+91 9821168121 ई-मेल:subodh.sonwale@omkaraarc.com पर संपर्क कर सकते हैं।

वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के लिए सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 6(2) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ती /गारंटरों **15 दिनों (पंद्रह**) से कम नहीं की एक अनिवार्य सूचना भी है और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूत्तिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत, उन्हें लागत् और व्यय के साथ उपरोक्त उपर्युक्त बकाया का भुगतान करके, यदि उनके द्वारा वांछित संपत्ति को छुड़ाने की सलाह के साथ उपरोक्त दिनांक और समय पर ई–नीलामी के माध्यम से नीलामी / बिक्री के , गायोजन के बारे में सचित किया गया है। भगतान में चक के मामले में, प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(5) के तहत संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता के विवेक पर हस्ता./- प्राधिकृत अधिकार् नेधारित किसी भी प्रणाली के माध्यम से बेची जाएगी।

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्क्शन प्रा. वि दिनांक : 29 अगस्त,2024 (ओमकारा पीएस 03/2023–24 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्यरत स्थान : मुंबई सुबोध सोनावले (+91 982 1 1 68 1 2 1 IN THE PUBLIC TRUSTS REGISTRATION OFFICE GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI

Dharmaday Ayukt Bhavan, 1st Floor, Sasmira Building, Sasmira Road, Worli, Mumbai 400 030. PUBLIC NOTICE OF INQUIRY Change Report No.: ACC/IX/4416/2022

Filed by Mr. Jahangir N. Mistry
In the matter of "Tata Education and Development Trust" P.T.R. No. E-25173(Mum)

WHEREAS the Trustees of the above trust have filed a Change Report under Section 22 of the Maharashtra Public Trusts Act, 1950 for bringing the below describe property on the records of the above named trust and an inquiry is to be made by the Assist. Charity Commissioner IX, Greater Mumbai Region, Mumbai, viz. 1) Whether this property is the property of the trust and could be registered

in the trust name?

DESCRIPTION OF THE PROPERTY:

Please take on record the acquisition of leasehold rights in the following property acquired by the trust:

"Lower Ground Floor of the Old Block at R. K. Khanna Tennis Stadium pplex, 1 Africa Avenue, New Delhi-110029, admeasuring tely 4,500 sq. ft. (carpet area) and approximately 5,000 sq. ft. (super-built up area).'

This is to call upon you to submit your objections, if any, in the matter before the Assist. Charity Commissioner IX, Greater Mumbai Region, Mumbai, at the above address within 30 days from the date of publication of this notice failing which the change report will be decided on its own merits.

Given under my hand seal of the Joint Charity Commissioner, Greate Mumbai region, Mumbai.

This 20th day of the month of August, 2024.

Superintendent - (J), Public Trusts Registration Office, Greater Mumbai Region, Mumbai.

FORM NO. 5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
600/1 University Road, Near Hanuman Setu Mandir
Lucknow-226 007

(Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing Reply & Appearance by Publication O.A. No. 408 of 2024

Summons to Defendant Under Section 19/3), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Ruies. 19931) O.A. No. 408/2024

BANK OF MAHARASTRA

.....Applicant **VERSUS** 

M/S HNT MANPOVIER SERVISES PVT.LTD. AND ORS ....DEFENDANTS Rakesh Sharma, aged about adult, Director of HNT

Manpower Servises Pvt.ltd., Add. 284, Kotvan-2 Mathura-281403 Also at LIG 258, Awas Vikas Colony, Rudrapur, Udham

Singh Nagar, Uttarakhand-263153 ...Defendants

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Presiding Officer on 03/09/2024 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि.

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था ) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सरेन्द्र सिंह और गीता शर्मा उर्फ गीता को 25.01.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLROH00517561 की राशि रू. 29,44,893.60 (रूपये उनतीस लाख चौवालीस हजार आठ सौ तिरानबे और साठ पैसे मात्र) और 24.01.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **23.08.2024** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 29,44,893.60 (रूपये उनतीस लाख चौवालीस हजार आठ सौ तिरानबे और साठ पैसे मात्र) 24.01.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नंबर 12 पर मकान, मापित 101 स्क्वे. यार्डस, प्रॉपर्टी आईडी 30C892U86, वार्ड नंबर 4 मिन जुमला पर स्थित, खसरा नंबर 14953/7745, सूर्य नगर, लाधोत रोड, मौजा रोहतक-124001, हरियाणा ।

माप और सीमा:

पूर्व : 20 फीट 0 इंच. अन्य मकान

पश्चिम : 20 फीट 0 इंच. 20 फीट चौडी सडक 45 फीट 0 इंच श्री लक्ष्मण हाल मलकीयत प्रवीण का प्लॉट

दक्षिण: 46 फीट 0 इंच, मलकीयत राम नरेश

दिनांक: 23.08.2024 रोहतव

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड ( पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

almondz अलमों ड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1994PLC059839 पंजीकृत कार्यालयः एफ-33/3, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोनः 011-43500700, फैक्सः 011-43500735 www.almondzglobal.com, ईमेल आईडी: secretarial@almondz.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमाँ ("ओएवीएम") के माध्यम से उठवें वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर जानकारी की सूचना उपरोक्त कथित परिपत्रों और कंपनी अघिनियम, 2013 (यथासंशोधित) (अघिनियम) के संगत एतद्द्वारा सूथित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 30वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 20

सितन्बर, 2024 को सुबह 9.30 बजे विडियों कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियों विडियों माध्यमी (''वीसी/ऑएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनयम, 2013 (यथासंशोधित) (अधिनियम) के संगत प्रावधानों और सेबी (सूबीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (यथासंशोधित) (सूचीयन विनियम) ओर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रातय (एमसीए) द्वारा वीसी/ओएबीएम के माध्यम से आम बैठक के आयोजन के लिए जारी किए गए सभी लागू परिपत्नों तथा मारतीय प्रतिमृति और विनिम्य बोर्ड (सेबी परिपत्नों) के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना विडियों कोंग्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन हेतु कंपनी की वार्षिक आम बैठक बीसी के गाध्यम से आयोजित की जा रही है जिराकी सुबना 31 मार्च, 2024 को सागाप वित्तीय वर्ष के लिए लेसापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट के साथ झरियसायर्का जिनके ई-नीक पता डिपोंजिटरी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है, को व्यवितगत रूप से उनके ई-मेल पर पहले ही भेजी जा चुकी हैं। 30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.almondzglobal.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा सीढीएसएल की वेबसाइट www.evoingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। ई-मेल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना मेजने का कार्य 27 अगस्त, 2024 को पूरा कर लिया गया है। कंपनी अपने सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग सुविधा लिंक www.evotingindia.com

पर उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 17 सितान्य, 2024 को प्रात: 10:00 बजे प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 19 सितान्बर, 2024 को सार्थ 5:00 बजे समाप्त होगी। शेयरधारक द्वारा एक बार प्रस्ताव पर बोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग के लिए कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2024 होगी। इतेब्ट्रॉनिक वोटिंग दिशानिर्देशों के लिए शेयरघारक कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिये गये निर्देशों को मली—मांति पढ़ लें व्यक्ति जो शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-आँक तिथि अर्थात् शुक्रवार, 13 सिताबर, 2024 को योग्य शेयरधारक है, वह लॉगइन आईडी एयं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए श्री पुनीत मित्तल से फोन नं. (011-29961281) पर या beetalrta@gmail.com पर संपर्क कर सकता है।

19 सितम्बर, 2024 को साथ 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुका सदस्य भी आम बैठक में माग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा वोट देने की अनुमति नही होगी। वार्षिक आम बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई आएगी और वीसी के माध्यम से वोस्क आम बैठक में उपस्थित सुदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही वार्षिक आम बैठक में ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई ामार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई−वोटिंग की सुविधा प्राप्त क के हकदार होंगे।

भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में वोटिंग की प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है।

ई—वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए श्री पुनीत मित्तल, महाप्रबंधक, बीटल फाइनॅशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. से beetalrta@gmail.com पर या फोन नं. 011 29961281 पर संपर्क कर सकते हैं या ई–मेल helpdesk.evoling@cdslindia.com पर लिख सकते हैं या फोन नं. 1800 2109911 पर कॉल कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 और कंपनी (प्रंबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 1

के साथ पिठत भारतीय प्रतिभूति और विनिगय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतदहारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 30वी वार्षिक आम बैठक के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 14 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। बोर्ड के आदेशानुसा

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 28.08.2024

कृते अलगों हज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिगिटेड हस्ता /-अजय प्रताप

कंपनी सचिव औ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट मामर

सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

शाखा कार्यालयः जी-2/43, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनॉट सर्कस** शाखा, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 14/11/2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताः कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से स्व0 श्री प्रेम चन्द्र लुईस और स्व0 श्रीमती बहमनी लूईस को सूचना में अंकित राशि रु.63,61,012.90 (तिरसठ लाख इकसठ हजार बारह रूपये एवं नब्बे **पैसे मात्र)** (जो 14 / 11 / 2023 को मूलधन एवं ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 14/11/2023 से आज तक ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता बैंक की सम्पूर्ण निर्धारित बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता, गारंटर तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **सम्पत्ति का कब्जा 27 अगस्त 2024** को ले लिया है। ऋणकर्ता को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.63,61,012.90 (तिरसठ लाख इकसठ हजार बारह रूपये एवं नब्बे पैसे मात्र) (जो 14 / 11 / 2023 को मूलधन एवं ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही 14/11/2023 से ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनॉट सर्कस शाखा, नई दिल्ली के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति के मालिकः श्री प्रेम चन्द्र लुईस)

244–ए, पॉकेट जे एण्ड के, दिलशाँद गार्डेन, नई दिल्ली–110095. जो घिरा है:--

**उत्तरः** अन्य का फ्लैट दक्षिणः सडक 30' - 0" चौडी **पूर्वः** फ्लैट नं. 245—ए पश्चिमः फ्लैट नं.243-ए

(प्राधिकृत अधिकारी), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तिथिः 27/08/2024 स्थानः नई विल्ली कनॉट सर्कस शाखा, नई दिल्ली

सूचना

ओमेक्स लिमिटेड

(सीआईएन: L74899HR1989PLC051918) रिज. कार्यालयः दुकान सं. 19–दी, प्रथम तल, ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल, सीहना रीड. गुरुग्राम –122001 (हरियाणा) कॉर्पोरेट कार्यालयः ओमेक्स हाउस , र स्थानीय शॉपिन कॉम्प्लेयस्, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 फोन: 91–11–41893100, 41896880 । फैक्स: 91–11–41896679 ईमेलः secretarial\_1@omaxe.com । वेबसाइटः www.omaxe.com

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में ] रिजस्ट्रीकृत कार्याल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, उत्तर क्षेत्र के समक्ष

प्ररूप संख्या आईएनसी –26

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले मे और

ओमेक्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय दुकान सं. 19-बी, प्रथम तल, ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा -122001, के मामले आम जनता को यह **सचना** दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "दुकान नं. 19—बी, प्रथम तल, ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा—122001" से '7, लोकल शॉपिंग सेंटर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019" में स्थानांतरित करने के मंगलवार 29.03.2024 को विशेष संकृत्य के संदर्भ में डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पष्टि की मांग की गई है। कंपनी के रजिस्टीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर शिकायत दर्ज कर सकता या एक शपथ पत्र जिसमें उनके दित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर पताः **बी—2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई** दिल्ली—110003, पते पर पंजीकृत खक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्न रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगाः

दुकान नं-19-बी, प्रथम तल ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा-

बोर्ड के लिए और की ओर से **ओमैक्स लिमिटेड** के लिए

हस्ता /-विनीतंगोयल (निदेशक) डीआईएनः 03575020

सही/

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 28 अगस्त, 2024

# दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड CIN: L29130HR1986PLC081555 पंजी. कार्यांतय : प्लॉट नंबर 24,25,26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरुग्राम-122050, हरियाणा

कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, गुरूग्राम -122009, हरियाणा फोन : + 91(124) 4715100 वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

38वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

(क) वार्षिक सामान्य बैठक एवं बही बंदी :

एतदद्वारा स्चना दी जाती है कि दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, सितम्बर 26, 2024 को साय 05.00 बजे (आईएसटी) कम्पनी व पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 24, 25, 26, सेक्टर-7, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम—122050, हरियाणा में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, तदधीन विरचित नियमों, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (एलओडीआर) के साथ पठित एमसीए तथा सेबी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सर्कुलर्स के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) वे माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा के साथ आयोजित की जाएगी।

एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग ले रहे ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा नहीं डाला होगा, बैठक में मतपत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोत डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सकते हैं या रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल सकते हैं (जहां सदस्य वीसी या ओएवीएम द्वारा बैठक में भाग ले रहे हैं)। यदि सदस्यों ने किसी भी विधि से एक ज्यादा वोत डाला होगा, तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाला गया वोट मान्य होगा तथा मतपत्र द्वारा अथवा ई—वोटिंग द्वारा डाला गया वोट अवैध मान्य होगा।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं जिनका ई—मेल पता कम्पनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास दर्ज है। कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथ सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 के अनुसरण में, यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी की सदस्य पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024 से बृहस्पतिवार सितम्बर २६, २०२४ तक (दोनों तिथियों सहित) एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी तथा मार्च ३१, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया, प्राप्त करने हेतु हकदार शेयरधारकों के अभिनिश्चयन के प्रयोजन हेतु कट—ऑफ तिथि जोकि सितम्बर 19, 2024 है, संबद्ध तिथि मानी जाएगी।

कम्पनी के सदस्य सूचित हों और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियमावली), 2014 के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सचना में सचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफार्म के माध्यम से, एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। अधिनियम तथा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत विवरण नीचे दिय

05.00 बजे (आईएसटी)। तदुपरांत ई—वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया

(ग) विच्छेदन तिथि : बहस्पतिवार सितम्बर 19 2024

(घ) वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना जिसमें अन्य के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया, परोक्षी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्चियां समाविष्ट हैं, कम्पनी की वेबसाइट www.thehitechgears.com पर उपलब्ध हैं। (ङ) कोई व्यक्ति. जिसने एजीएम की सचना प्रेषित किए जाने के बाद और विच्छेदन तिथि र

हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी करवाने के लिए आरटीए अथवा कम्पनी से सम्पर्क (च) एजीएम में मतपत्र / ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथ

पहले शेयर अर्जित किए हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोट डालने के अधिकार के प्रयोग

ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। (छ) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है

(ज) कोई व्यक्ति, जिसका नाम लाभार्थी स्वामी पंजिका / सदस्य पंजिका में विच्छेदन-तिथि को दर्ज मौजूद है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम मे वोटिंग का

एजीएम में ई-वोटिंग की सविधा एजीएम के दिन अर्थात बहस्पतिवार. सितम्बर 26. 2024 के उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्यगण उसको रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेन्शियल्स का उपयोग करते हुए https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरहोल्डर्स / मेम्बर्स लॉगइन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे अपना वोत एजीएम में डाल सकते हैं।

सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालन की संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है। ई−वोटिंग के संबंध में किसी संदेह ∕ शिकायत के लिए सदस्यगप www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए एफएक्यू'ज तथा ई–वोटिंग यजर मैनअल देखें अथवा टोल फ्री नंबर : 022 -4886 7000 तथा 022 - 2499 7000 पर कॉल करें अथवा <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेजें।

ई-वोटिंग से संबंधित समस्त पत्राचार श्री नवीन जैन, कम्पनी सचिव एवं अनपालन अधिकारी के साथ उपरोक्त पते पर करें अथवा <u>secretarial@hitechgears.com</u> पर ई—मेल करें । (घ) अंतिम लाभांशः

यदि एजीएम में शेयरों पर अंतिम लाभांश अनुमोदित किया जाता है, तो उस लाभांश क भगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम अधिनियम की धारा 91. सेर्ब (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 तथा अन्य लागू प्रावधानों के निबन्धनों में . उपरिवर्णित विच्छेदन तिथि को सदस्यों की पंजिका में दर्ज मौजूद होगा।

एजीएम की उपरोक्त सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.thehitechgears.com पर उपलब्ध हैं।

वास्ते दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

नवीन जैन (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) M. No: A15237

मुख्य कार्यालय : लेवल 3, वोखार्ट टॉवर्स, इंस्ट विंग, सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (इंस्ट), मुम्बई 400 051, दूरभाष : 022 424 400, 022 4060 3100 वेबसाइट : http://www.shriramfinance.in पंजीकृत कार्यालव : श्री टावर्स, प्लॉट नं 14ए, साउथ फेज इंडस्ट्रियल एस्टेट गुइंडी, चेर्लाई 600 032, शाखा कार्यालय : के.आर.पी.आर, टॉवर, ए-25, 2सरा तल, अखिल्य विकास योजना, सामने डाले खान पेटोल पम्प, अखिल्य सर्किल, जोधपर-342003, राजस्थान

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सूचना नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'

30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया। वित्तीय आस्त्रियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, क्र बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसूली के लिए ''<mark>जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'</mark> तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 4 अक्टूबर, 2024 को 11 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच की जायेगी कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मुल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों /सहकर्जदारों / जमानतियों /बंधककर्ताओं के नाम	13(2) मॉग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एटा समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
ऋण संख्या  JODP2LP2303030001  1. श्री राकेश पंवार पुत्र श्याम कुमार पंवार (कर्जदार) सी-25, चौधिरयों का मौहल्ला, पाबूपुरा, जोधपुर, राजस्थान- 342011  2. श्री हिमांशू पंवार पुत्र राकेश पंवार (सह-कर्जदार/गारंटर) सी-25, चौधिरयों का मौहल्ला, पाबूपुरा, जोधपुर, राजस्थान- 342011 सांकेतिक कब्जा दिनांक- एनपीए- 03-फरवरी-2024  कब्जे की तिथि एवं कब्जे का प्रकार  22.04.2024 - सांकेतिक कब्जा ज्ञात ऋण भार	मांग सूचना दिनांक- 07-02-2024, फ. 31,73,651/- (रुपये इकतीस लाख तिहत्तर हजार छः सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 3 फरवरी, 2024 तक फोर क्लोजर राशि के अनुसार नियम और शर्तों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज और शुल्क के साथ	भूखंड संख्या सी- 25, खसरा संख्या 632, पाबूपुरा, जोधपुर में स्थित भूमि और भवन का समस्त भाग, माप 445.5 वर्ग गज, जोधपुर में स्थित। सीमा विवरण:- उत्तर में: गली, दक्षिण में: श्रीमती भंवरी देवी की संपत्ति, पूर्व में: श्रीमती गोपी की संपत्ति, पश्चिम में: श्री नाथूराम की संपत्ति	रु. 57,17,250/- (रुपये सतावन लाख सत्रह हजार दो सौ पचास मात्र)  संविदा वृद्धि : रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)  जमा धरोहर राष्ट्रि (ईएमडी) (रु.) रु. 5,71,725/- (रुपये पांच लाख इकहतर हजार सात सौ पच्चीस मात्र)  ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 3 अक्टूबर, 2024 समय 10.00 बजे पूर्वा, से 5.00 बजे अप.	इंएमडी राष्ट्रि यहां नीचे उल्लिखत खाता विवरणों में आरटीजीएस / एनईएफटी के मध्यम से श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बैंक का नाम : एविसस बैंक लिमिटेड शाखा डॉ. राधाकृष्णन सलाई मायलापोर, चेन्नई बैंक खाता नं. चालू खाता सं. 006010200067449 आईएफएससी कोड : UTIB0000006	4 अक्टूबर , 2024 समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.	श्री सुरेन्द्र श्रेखावत 8385906610 श्री तस्त सिंह शेखावत 783418825 देबज्योति 9874702021 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 15 सितम्बर, 2024 समय 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिनों की वैधानिक सूचना

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तारीख यानी 4 **अक्टूबर**, 2024 से पहले उपरोक्त वर्णित राशि के साथ-साथ अद्यतन ब्याज और सहायव खर्चों का भुगतान करें, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसुल किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी नेक्सजेन सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.disposalhub.com) पर आयोजित की जाएगी और निविदा जमा करने के स्थान / बोली प्रपत्र प्राप्त करने∕ निविदा खुलना और नीलामी के लिए, कृपया वेबसाइट https://www.disposalhub.com पर जाएं और बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट https://www.shriramfinance.in/auction में प्रावधानित लिंक देखें।

स्थान : जोधपुर तिथि : 29.08.2024

ह./- अधिकृत प्राधिकारी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

सदस्यगण वोटिंग की केवल एक विधि चुन सकते हैं अर्थात या तो मतपत्र द्वारा वोट डाल

(ख) रिमोट ई—वोटिंग

(क) रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : सोमवार, सितम्बर 23, 2024 पूर्व 09.00 बजे (आईएसटी)। (ख) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : बधवार सितम्बर 25 2024 सार

केवल वे सदस्य एजीएम में मतपत्र / ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के अधिकारी होंगे, जं "विच्छेदन तिथि" अर्थात सितम्बर 19, 2024 को कम्पनी के सदस्य हैं तथा जिन्होंने रिमोट

परंतु उसको बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी

हकदार होगा। (ग) एजीएम में ई-वोटिंग

कम्पनी ने श्री निर्भय कमार, मैसर्स निर्भय कमार ऐंड एसोसिएटस के स्वामी, कार्यरत कम्पन

तिथि : अगस्त 28, 2024

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

SHRIRAM SHRIRAM City